



केंद्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन
मुख्यालय कार्यालय, प्रयागराज
जनसम्पर्क विभाग

सं.
कोर/जी/पीआर/010

दिनांक 17.07.2021

प्रेस विज्ञप्ति

रेल विद्युतीकरण महिला कल्याण संगठन एवं केंद्रीय चिकित्सालय उत्तर मध्य रेलवे के तत्वाधान में
कोविड-19 से बचाव के लिए टीकाकरण शिविर

कोविड-19 महामारी से प्रभावी तरीके से लड़ने के लिए रेलवे अपने कर्मचारियों को बेहतर से बेहतर चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराने के साथ-साथ 100% वैक्सीनेशन कराने का लक्ष्य रखा है इसी क्रम में रेल विद्युतीकरण महिला कल्याण संगठन एवं केंद्रीय चिकित्सालय उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज, के तत्वाधान में कोविड-19 से बचाव हेतु कोविड टीकाकरण शिविर का आयोजन मैत्री क्लब, बाल्मीकी चौराहा, सिविल लाइन्स पर किया गया।

रेल विद्युतीकरण महिला कल्याण संगठन, प्रयागराज समाज के कल्याण के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रही है। संगठन द्वारा समय-समय पर रेल कर्मचारियों एवं समाज के कमजोर वर्ग के लिये सहायता एवं उनके प्रोत्साहन के लिये विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये जाते रहे हैं। उसी कड़ी में दिनांक 17.07.2021 को इस संगठन एवं केंद्रीय चिकित्सालय उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज के चिकित्सा निदेशक श्रीमती रूपा कपिल के तत्वाधान में कोविड-19 से बचाव के लिए टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें ऐसे अधिकारी, कर्मचारी एवं कोर में कार्य कर रहे संविदा कर्मी जिन लोगो ने अभी तक कोविड-19 से बचाव का टीका नहीं लगवाया है ऐसे सभी अपने परिवार के सदस्यों के साथ टीका का प्रथम डोज़ लगवा सकें इसके लिये रेल विद्युतीकरण महिला कल्याण संगठन, प्रयागराज की अध्यक्ष श्रीमती रचना सिंह के नेतृत्व में रेल विद्युतीकरण अधिकारी क्लब (मैत्री क्लब), सिविल लाइन्स, प्रयागराज में दिनांक 17.07.2021 दिन शनिवार को दो पालियों में प्रातः 09.30 से दोपहर 12.30 बजे तक तथा दोपहर 01.00 बजे से सायं 04.00 बजे तक टीकाकरण का महा अभियान चलाया गया और सुनिश्चित किया गया कि रेल विद्युतीकरण संगठन से जुड़े सभी लोग पूर्णरूप से कोविड-19 बचाव हेतु जारी टीका से युक्त रहें।

(अमिताभ शर्मा)
मुख्य जन सम्पर्क अधिकारी
कोर/प्रयागराज